

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1973/आपाङ्क 25, 1895

No. 260] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1973/ASADHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रम संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July 1973

S.O. 397(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the textile undertakings specified in column (2) of the Schedule to this notification (hereinafter referred to as the said industrial undertakings) it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the textile industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (72 of 1972) the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this notification to which the said industrial undertakings or the companies owning such undertakings as specified in column (3) of the said Schedule are parties or which may be applicable to the said industrial undertakings or companies, shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities (except those relating to banks and financial institutions) accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

SCHEDULE

| S. No. | Name and address of the textile undertaking | Name and address of the owner of the textile undertaking |
|--------|---|--|
| 1. | 2 | 3 |
| 1 | Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Mill No. 2, Kataganj, Distt. Nadia (West Bengal). | Bengal Fine Spinning and Weaving Mills Ltd., 7, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta. |
| 2 | Bijli Cotton Mills, Mendu Road, Hathras (Uttar Pradesh). | The Bijli Cotton Mills, (Private) Limited, Agra (Uttar Pradesh). |
| 3 | Indore Malwa United Mills, Indore. | The Indore Malwa United Mills Ltd., 139, Meadows Street, Fort, Bombay. |
| 4 | Lord Krishna Textile Mills, Saharanpur (Uttar Pradesh). | Lord Krishna Sugar Mills Limited, Chand Hotel, Chandni Chowk, Delhi. |
| 5 | Sri Kothandram Spinning Mills, Madurai. | Sri Kothandram Spinning Mills (Private) Limited, Madurai. |
| 6 | Cannanore Spinning and Weaving Mills, Cannanore, (Kerala). | The Cannanore Spinning and Weaving Mills Limited, Cannanore, (Kerala). |

[No. F. 11021/151/72-Text (G)]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1973

का०प्रा० 397(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के संबंध में, कपड़ा उद्योग के उत्पादन की मात्रा में गिरावट को रोकने की दृष्टि से, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण), अधिनियम, 1972 (1972 का 72) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह घोषित करती है कि इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणों, करारों, ठहरावों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का, जिनकी एक पक्षकार उक्त औद्योगिक उपक्रम या उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रमों या कम्पनियों को लागू होता हो, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन उद्योग या उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व (सिवाय उनके जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित हैं), उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

अनुसूची

| क्रम सं० | वस्त्र उपक्रम का नाम और पता | वस्त्र उपक्रम के स्वामी का नाम और पता |
|----------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स, मिल सं० 2, काटगंज, जिला नाडिया (पश्चिमी बंगाल) | बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स लि० 7, बिपिन बिहारी गंगुली स्ट्रीट, कलकत्ता । |
| 2 | बिजली काटन मिल्स, मैट्टू रोड, हाथरस (उत्तर प्रदेश) | दी बिजली काटन मिल्स (प्राइवेट) लिमि०, आगरा (उत्तर प्रदेश) |
| 3 | इन्दौर मालवा यनाइटेड मिल्स, इन्दौर | दी इन्दौर मालवा यनाइटेड मिल्स लि०, 139, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई । |
| 4 | लार्ड कृष्ण टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) | लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स लि०, चांद होटल, चांदनी चौक, दिल्ली । |
| 5 | श्री कोथानडून स्पिनिंग मिल्स, मदुराई | श्री कोथानडून स्पिनिंग मिल्स (प्राइवेट) लि० मदुराई । |
| 6 | कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स, कन्नानोर (केरल) | दी कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स लि०, कन्नानोर (केरल) |

[सं० फा० 11021/151/72-वस्त्र (जी)]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

